



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2001/माघ 27, 1922

No. 77]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2001/MAGHA 27, 1922

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2001

सा.का.नि. 100(अ).—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय के निदेशक (पत्तन प्रचालन) को चैन्नई पत्तन के न्यामी मण्डल में विकास सलाहकार (पत्तन) के स्थान पर न्यामी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31-3-2000 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 279(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

(2) उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 7 के सामने "विकास सलाहकार (पत्तन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "निदेशक (पत्तन प्रचालन), पोत परिवहन मंत्रालय" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. पीटी-18011/3/99-पीटी]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Port Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2001

G.S.R. 100(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Director, Ports (Operations), Ministry of Shipping on the Board of Trustees of the Port of Chennai vice Development Adviser (Ports) as a Trustee and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 279(E) dated 31-3-2000.

2 In the said notification against the Serial No 7 for the words "Development Adviser (Ports), Ministry of Surface Transport", the words "Director, Ports (Operations), Ministry of Shipping" shall be substituted.

[F No. PT-18011/3/99-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

